



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

22 ज्येष्ठ, 1940 (श०)

संख्या- 590 राँची, मंगलवार

12 जून, 2018 (ई०)

राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड

.....

आदेश

4 जून 2018

संख्या-03नि0प0-11/2016 रा0नि0आ0 1013.. यतः राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट जिला से त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन, 2015 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68क एवं 65क 'क' सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ;

और यतः उक्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर (यदि कोई हो) विचार करने के

पश्चात् राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त या न्यायोचित्य कारण नहीं है ;

अतः इस संबंध में उपायुक्त, खूँटी के प्रतिवेदन/अनुपूरक प्रतिवेदन एवं अभ्यर्थियों से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षोपरान्त अब राज्य निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क, सहपठित झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68क एवं 65'क' 'क' के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को त्रिस्तरीय पंचायत निकायों/स्थानीय नगर निकायों के किसी भी पद या स्थान के लिए चुने जाने और निर्वाचित होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित किया जाता है।

क्रमांक	जिला	निर्वाचन क्षेत्र	नाम एवं पता	कारण
1	2	3	4	5
1	खूँटी	XIX/खूँटी-(1)	फागु हेरेंज, ग्राम-तुलेन, प्रखण्ड-करा, जिला-खूँटी	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2		XIX/खूँटी-(1)	मंजू देवी, ग्राम-तसकी, प्रखण्ड-करा, जिला-खूँटी	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
3		XIX/खूँटी-(3)	तुरतन तोपनो, ग्राम-सटाल टेटेया टोली, प्रखण्ड-तोरपा, जिला-खूँटी	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
4		XIX/खूँटी-(3)	गन्दौरी गुड़िया, ग्राम-कुमांग पाटपुर, प्रखण्ड-तोरपा, जिला-खूँटी	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
5		XIX/खूँटी-(4)	गन्दौरी गुड़िया, ग्राम-कुमांग पाटपुर, प्रखण्ड-तोरपा, जिला-खूँटी	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
6		XIX/खूँटी-(6)	झींगी नाग, ग्राम-मारंगहदा, प्रखण्ड-खूँटी, जिला-खूँटी	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
7		XIX/खूँटी-(7)	किरण टुटी, ग्राम-चिकोर बरटोली, प्रखण्ड-खूँटी, जिला-खूँटी	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
8		XIX/खूँटी-(7)	रूपचन्द देवी, ग्राम-पाटीबेड़ा, प्रखण्ड-खूँटी, जिला-खूँटी	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

9	XIX / खूँटी-(9)	रंजित पूर्ती, ग्राम-पीड़ीहातु, प्रखण्ड-मुरहू, जिला-खूँटी	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
10	XIX / खूँटी-(10)	जयपाल सिंह पातर, ग्राम-सेरेंगहातु, प्रखण्ड-अड़की, जिला-खूँटी	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
11	XIX / खूँटी-(10)	मोनसा हजाम, ग्राम-तुबीद, प्रखण्ड-अड़की, जिला-खूँटी	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
12	XIX / खूँटी-(10)	सोनाराम यादव, ग्राम-गोड़ाहाप्पा, प्रखण्ड-अड़की, जिला-खूँटी	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
13	XIX / खूँटी-(10)	संजय मुण्डा, ग्राम-अड़की, प्रखण्ड-अड़की, जिला-खूँटी	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
14	XIX / खूँटी-(1)	फ़ेक्लीन धान, ग्राम-रोलागुट्ट, प्रखण्ड-करा, जिला-खूँटी	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
15	XIX / खूँटी-(10)	पंकज कुमार साहु, ग्राम-सिन्दरी, प्रखण्ड-अड़की, जिला-खूँटी	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से,

ह० /-(अस्पष्ट),

उप निर्वाचन आयुक्त,

राज्य निर्वाचन आयोग,

झारखण्ड, राँची।
